

July 16, 2022

**To,**  
**The Manager,**  
**BSE Limited,**  
25<sup>th</sup> Floor, P J Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai – 400001

**The Manager,**  
**National Stock Exchange of India Ltd.,**  
Exchange Plaza, C-1, Block G,  
Bandra Kurla Complex, Bandra East,  
Mumbai-400051

**Scrip Code: 539404**

**Scrip Code: SATIN**

**Sub: Submission copies of newspaper advertisements for 32<sup>nd</sup> Annual General Meeting (“AGM”) and e-Voting information**

Dear Sir/Madam,

In continuation of our letter dated July 12, 2022, we enclose copies of the advertisements published on July 16, 2022, in Business Standard (English & Hindi) with respect to:

- Completion of dispatch of notices of the AGM and Annual Report for FY 2021-22; and
- E-Voting information relating to the AGM.

We request you to take the same on records.

Thanking You.

Yours faithfully,  
**For Satin Creditcare Network Limited**

**(Vipul Sharma)**  
**Company Secretary & Compliance Officer**

Encl: a/a



**सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**  
**Central Bank of India**

1911 से अमरेक रिज-केडिग "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

**Central Office: Chandermukhi Nariman Point, Mumbai-400 021**

**NOTICE**

Central Bank of India invites tender for Integrated e-Surveillance System at Branches and Currency Chests on OPEX Model. Please see our website **www.centralbankofindia.co.in** for tender & it's Corrigendums.

**Place:** Mumbai **Chief Security Officer**  
**Date:** 15.07.2022



**FACT**

**THE FERTILISERS AND CHEMICALS TRAVANCORE LIMITED**  
(A Government of India Enterprise) Regd. Office: Eloor Corporate Materials, FACT-PD Administrative Building, Udyogamandal Kochi, Kerala - 683 501, Ph: 0484-2568216/2568636, Fax: 0484-2545172 E-mail: sheshappriyan@factitd.com; mathewt@factitd.com; website: http://www.fact.co.in

**E-TENDER FOR SUPPLY OF CANDLE FILTERS FOR INTERMEDIATE ABSORPTION TOWER**


**Tender Ref. No.: MM/105/E25611**


Tenders [Online bidding] are invited from experienced and financially sound parties for supply of Candle Filters for Intermediate Absorption Tower through https://e-procure.gov.in portal. Interested parties may visit our website (www.fact.co.in) of Central Public Procurement Portal (https://e-procure.gov.in) for tender details and further updates on the tender including extension of due date, if any.

Tender ID: 2022-FACT\_700868\_1 **Due date/time for submission of bids: 05.08.2021 / 02.00 PM.** (Hindi Version is Published in our Website.)

Sd/-  
Udyogamandal  
Date: 15.07.2022

Deputy General Manager (Materials) ESS

<div><div><b>KESORAM INDUSTRIES LIMITED</b></div><div>Regd. Office : 9/1, R. N. Mukherjee Road, Kolkata - 700 001</div></div>									
Extract of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter ended 30 <sup>th</sup> June, 2022									
₹ /Crores									
Sl. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Current three months ended 30/06/2022 (Unaudited)	Preceding three months ended 31/03/2022 (Unaudited)	Corresponding three months ended in the previous year 30/06/2021 (Unaudited)	Previous year ended 31/03/2022 (Audited)	Current three months ended 30/06/2022 (Unaudited)	Preceding three months ended 31/03/2022 (Unaudited)	Corresponding three months ended in the previous year 30/06/2021 (Unaudited)	Previous year ended 31/03/2022 (Audited)
1	Total Income from Operations	848.45	1,038.28	809.08	3,577.71	917.20	1,041.79	861.08	3,642.47
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional items)	(61.35)	(18.80)	47.10	14.37	(81.34)	(44.05)	25.80	(64.86)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	(61.35)	(152.80)	47.10	(139.88)	(81.34)	(66.40)	25.80	(87.21)
4	Net Profit/(Loss) after tax for the period (after Exceptional items)	(41.26)	(132.54)	34.07	(130.01)	(61.25)	(46.14)	12.77	(77.34)
5	Net Profit/(Loss) after tax for the period and Other Comprehensive Income (net of tax)]	(41.26)	(133.08)	34.66	(129.04)	(60.92)	(46.67)	13.80	(75.04)
6	Paid up Equity Share Capital	244.54	244.41	164.81	244.41	244.54	244.41	164.81	244.41
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	360.71	-	-	-	265.04
8	Securities Premium	1,231.50	1,230.99	923.49	1,230.99	1,231.50	1,230.99	923.49	1,230.99
9	Net Worth	562.29	603.30	378.80	603.30	405.48	466.08	166.83	466.08
10	Outstanding Debt excluding OCRPS	1,598.00	1,605.02	1,865.04	1,605.02	1,812.37	1,803.95	2,041.12	1,803.95
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	95.86	90.70	78.23	90.70	95.86	90.70	78.23	90.70
12	Debt Equity Ratio	3.00	2.81	5.13	2.81	4.25	3.72	10.11	3.72
13	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) -								
1	Basic: (₹)	(1.58)	(5.19)	1.88	(6.50)	(2.35)	(1.81)	0.70	(3.86)
2	Diluted: (₹)	(1.58)	(5.19)	1.88	(6.50)	(2.35)	(1.81)	0.70	(3.86)
14	Capital Redemption Reserve	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59
15	Debt Redemption Reserve	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
16	Debt Service Coverage Ratio	0.77	0.37	3.36	0.97	0.69	0.32	3.14	0.87
17	Interest Service Coverage Ratio	0.62	1.03	1.59	1.22	0.51	0.87	1.44	1.09
Notes:									
a) The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter ended 30 <sup>th</sup> June, 2022 filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter ended 30 <sup>th</sup> June, 2022 along with the disclosures under Regulation 52(4) of SEBI LODR are available on the stock exchanges websites (www.nseindia.com, www.bseindia.com and www.cse-india.com) and on the Company's website at www.kesocorp.com.									
b) The figures for the quarter ended 31 <sup>st</sup> March, 2022 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and the published year to date figures upto the third quarter of the relevant financial year.									
c) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meetings held on 15 <sup>th</sup> July, 2022.									
By Order of the Board Sd/- P. Radhakrishnan Whole-time Director & CEO									
Place : Kolkata Date : 15 <sup>th</sup> July, 2022									
CIN : L17119WB1919PLC003429   Phone: 033 2243 5453, 2242 9454, 2213 5121 Email: corporate@kesoram.net   Website : www.kesocorp.com									



**SATIN CREDITCARE NETWORK LIMITED**

CIN: L65991DL1990PLC041796

Registered Office: 5th Floor, Kundan Bhawan, Azadpur Commercial Complex, Azadpur, Delhi-110033  
Corporate Office: Plot No. 492, Udyog Vihar, Phase III, Gurugram, Haryana-122016  
Ph. No. 0124-4715400; Website: www.satincreditcare.com Email id: secretarial@satincreditcare.com

**COMPLETION OF DISPATCH OF NOTICE OF 32<sup>nd</sup> ANNUAL GENERAL MEETING**

**Notice** is hereby given that the 32<sup>nd</sup> Annual General Meeting ("AGM") of Satin Creditcare Network Limited (the "Company") will be held on **Wednesday, August 10, 2022 at 11:00 A.M.** (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business, as set out in the Notice of AGM ("the **Notice**"). The Company has sent the Notice along with Integrated Annual Report for Financial Year ("FY") 2021-22 on Friday, July 15, 2022, through electronic mode to the Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Depository Participant ("DP") / Depository in accordance with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021 and 2/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 8, 2021, December 14, 2021 and May 5, 2022, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred as "**MCA Circulars**") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred as "**SEBI Circulars**").

Members may note that the Notice along with Integrated Annual Report for FY 2021-22 is also available on the website of the Company at <https://satincreditcare.com/wp-content/uploads/2022/07/Annual-Report-2021-2022.pdf>, website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), respectively, and on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India and guidelines prescribed by the aforesaid MCA Circulars and the SEBI Circulars, the Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice using electronic voting system ("e-voting") provided by CDSL. Members holding Equity Shares as on August 3, 2022 ("Cut-off date") shall have one vote per share as shown against their holding.

The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its Members to cast their votes on all resolutions which are set out in the Notice. Members have the option to cast their vote on any of the resolutions using the remote e-voting or e-voting during the AGM. Detailed procedure for remote e-voting/e-voting during the AGM is provided in the Notice of the AGM. The remote e-voting period commences on Sunday, August 7, 2022 at 10:00 A.M. (IST) and ends on Tuesday, August 9, 2022 at 5:00 P.M. (IST). The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter. The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their votes on such resolutions again.

Members who are holding shares in physical form or who have not registered their email address with the Company/DP/Depository or any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date, may cast their vote through remote e-voting or through e-voting at AGM in the manner as prescribed in the Notice.

Members who have not registered/updated their e-mail address with the Company/DP/Depository are requested to follow the below instructions:

Dematerialized Holding	Register / update e-mail address in your demat account, as per the process advised by your DP/Depository
Physical Holding	Register / update the details in prescribed Form ISR-1 and other relevant forms pursuant to Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated November 3, 2021, with Registrar & Share Transfer Agent ("RTA") of the Company, Link Intime India Pvt. Ltd. by email to <a href="mailto:swapann@linkintime.co.in">swapann@linkintime.co.in</a> . The Company has sent letters to the members about which folios are incomplete for furnishing the required details under aforesaid SEBI Circular.

Members may also refer to Frequently Asked Questions ("FAQs") under "*Update of KYC Details & Compulsory Issue of Shares in Dematerialized Form*" under Investor FAQ on Company's website <https://satincreditcare.com/investor-relations-satin-creditcare/#Other>

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Rajeev Bhatia, a Practicing Chartered Accountant (ICAI Membership No. 089018) of M/s Rajeev Bhatia & Associates, Chartered Accountants, as Scrutinizer to scrutinize the voting at AGM and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

Members are also informed that in case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer FAQs and e-voting manual available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com), under "Help" section or write an e-mail to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com). All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, CDSL, A Wing, 25<sup>th</sup> Floor, Marathon Futurex, Mafatal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an e-mail to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or call on 1800 22 55 33.

**For Satin Creditcare Network Limited**  
Sd/-  
**Vipul Sharma**  
(Company Secretary & Compliance Officer)

**Place:** Gurugram  
**Date:** July 15, 2022

**UNITED SPIRITS LIMITED**

Regd. Office: 'UB Tower', # 24, Vittal Mallya Road, Bengaluru-560 001.  
Tel: +91 80 4544 8000; Fax: +91 80 3985 6862  
**Email: investor.india@diageo.com; Website: www.diageoindia.com**  
Corporate Identity Number: L01551KA1999PLC024991

**NOTICE OF 23<sup>RD</sup> ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING**

Notice is hereby given that the 23<sup>rd</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the equity shareholders of the Company will be held on Tuesday, 9<sup>th</sup> August 2022 at 3.30 p.m. through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the businesses, as set forth in the Notice of the AGM of the Company, in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI (Listing Regulations)), read with circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide Circular No.14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 05, 2020, 02/2021 dated January 13, 2021, 19/2021 dated December 08, 2021, 21/2021 dated December 14, 2021 and 2/2022 dated May 05, 2022, and circular issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI) vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 (collectively referred as "relevant circulars" or "Circulars").

The Notice of the AGM of the Company along with the Annual Report for the financial year 2021-22, containing inter alia Report of the Directors, Statement of Profit and Loss, Balance Sheet and Report of the Auditors thereon, is being sent through electronic means to those shareholders, whose email addresses are registered with the Company/ depository participants. The Notice of the AGM along with the Annual Report 2021-22 is also made available on the Company's website at [www.diageoindia.com](http://www.diageoindia.com) and on the website of stock exchanges i.e. BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

In compliance with the provisions of section 108 of the Act read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and regulation 44 of the SEBI (Listing Regulations), the Company is providing its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the AGM through remote e-voting and e-voting during the AGM through services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The remote e-voting facility will commence on Saturday August 6, 2022 from 10:00 a.m. (IST) and ends on Monday August 8, 2022 at 5 p.m. (IST). The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting there after. Members who are present in the AGM VC / OAVM facility and have not casted their vote through remote e-voting and are other wise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system available during the AGM. A person whose name is recorded in the register of Members/Beneficial owners as on the cut-off date i.e. August 2, 2022 are entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during the AGM. The voting rights of members shall be in proportion to their shareholding in the Company as on the beginning of the cut-off date i.e., August 2, 2022.

Only those share holders, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system available during the AGM. If any votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the AGM and if the same share holders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes casted by such shareholders shall be considered as invalid, as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting. Shareholders who have voted through remote e-voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote during the AGM.

Any persons who acquire and becomes share holder of the Company after the dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. August 02, 2022 can cast their vote through remote e-voting or vote during the AGM by obtaining the login ID and password by sending an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) by mentioning their Folio no./DP ID Client ID. However, if such shareholder is already registered with the CDSL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote. Such members may obtain the Notice of the Meeting from Company's website at [www.diageoindia.com](http://www.diageoindia.com) or write to [investor.india@diageo.com](mailto:investor.india@diageo.com) or [bgilsta@integratedindia.in](mailto:bgilsta@integratedindia.in). The Notice of the AGM is also made available on CDSL e-voting website [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).

Sl.No.	Particulars	Day, Date & Time
1.	Date of Completion of Dispatch of Notice of 23rd AGM:	<b>Thursday, 14<sup>th</sup> July 2022</b>
2.	Date and time of commencement of remote e-voting:	<b>Saturday, August 6, 2022 at 10 a.m. (10.00 hours IST)</b>
3.	Date and time of ending of remote e-voting:	<b>Monday, August 08, 2022 at 5.00 p.m. (17.00 hours IST)</b>
4.	Cut Off Date	<b>August 02, 2022</b>

Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered/updated their email addresses with their Depository Participants (DP), are requested to register / update their email addresses with the relevant DP. Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated their email addresses with the Company, are requested to register / update the same by writing to Registrars and Transfer Agents ("RTA") of the company at [bgilsta@integratedindia.in](mailto:bgilsta@integratedindia.in) with duly filled and signed Form ISR-1 (Form for registering PAN, KYC, details or changes/ update thereof). Accordingly, members are requested to register/update their email addresses, as specified above.

Members who hold shares in dematerialised mode, physical mode and members who have not registered their email addresses, can cast their votes, once the remote e-voting starts, by following the instructions given below:

- The shareholders should log on to the e-voting website [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).
- Click on "Shareholders / Members" module.
- Now enter your User ID
  - For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
  - For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
  - Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.
- Next, enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- If you are holding shares in demat form and had logged on to [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.
- If you are a first-time user follow the steps given below:

For Shareholders holding shares in Demat Form and Physical Form	
PAN	Enter your 10-digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat share holders as well as physical share holders) ● Shareholders who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Company/RTA or contact <a href="mailto:bgilsta@integratedindia.in">bgilsta@integratedindia.in</a>
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company records in order to login. If both the details are not recorded with the depository or Company, please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field.

- After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu where in they are required to mandatorily enter their log in password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- For share holders holding shares in physical form, the detail scan be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice
- Click on the EVSN of the Company.
- On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option "YES or NO" as desired. The option YES implies that you as sent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
- After selecting the resolution(s) you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.
- If a demat account holder has forgotten the login password, then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- Facility for Non-Individual Shareholders and Custodians - Remote Voting
  - Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) and register themselves in the "Corporates" module.
  - A scanned copy of the registration form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com).
  - After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
  - The list of accounts linked in the login will be mapped automatically & can be delink in case of any wrong mapping. It is mandatory that, a scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
  - Alternatively, Non-Individual shareholders are required to send the relevant Board resolution/Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer and to the Company at the email address Viz: [sudhir.compsec@gmail.com](mailto:sudhir.compsec@gmail.com) or [investor.india@diageo.com](mailto:investor.india@diageo.com) respectively, if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

Members who hold shares in dematerialised mode, physical mode and members who have not registered their email addresses, can cast their votes, during the AGM, by following the instructions given below:

- The procedure for attending meeting & e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for Remote e-voting.
- The link for VC/OAVM to attend meeting will be available where the EVSN of Company will be displayed after successful login as per the instructions mentioned above for Remote e-voting.
- Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the meeting. However, they will not be eligible to vote at the AGM.
- Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops / iPads for better experience.
- Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
- Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
- Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance at least **5 days prior to meeting** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at [investor.india@diageo.com](mailto:investor.india@diageo.com). The shareholders who do not wish to speak during the AGM but have queries may send their queries in advance **5 days prior to meeting** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at [investor.india@diageo.com](mailto:investor.india@diageo.com). These queries will be responded appropriately by the company.
- Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.
- Only those shareholders, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Votings system available during the AGM.
- If any Votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the AGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such shareholders shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.

The members are requested to email their grievances, if any, for speedy redressal to [bgilsta@integratedindia.in](mailto:bgilsta@integratedindia.in) / [investor.india@diageo.com](mailto:investor.india@diageo.com). In case of any queries/grievances relating to voting by electronic means, the Members may contact at the following address:

Central Depository Services (India) Limited,  
17th Floor, P J Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001.  
Phone – 1800 200 5533  
email – [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com)

If Members have any queries or issues regarding attending AGM through VC and/or e-voting, may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com), under Help section or may write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or contact at 1800 22 55 33.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL), Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or call on 1800 22 55 33.

**For UNITED SPIRITS LIMITED**

**Date : 14<sup>th</sup> July, 2022**  
**Place : Mumbai**

**Mital Sanghvi**  
**Company Secretary**



# खरीफ की बुआई में दम, धान रोपाई कम यूपी में कम बारिश से उपज पर असर!

संजीव मुखर्जी  
नई दिल्ली, 15 जुलाई

दक्षिण पश्चिमी मौनसून डेढ़ महीने बीतने के बाद खरीफ की फसलों की बुआई का कुल रकबा पिछले साल के स्तर से ऊपर पहुंच गया है।इस सीजन में 15 जुलाई के आंकड़ों में पहली बार ऐसा हुआ है। वहीं प्रमुख फसलों में धान और दलहन में अरहर का रकबा पिछले साल की समान अवधि की तुलना में अभी कम है।

आंकड़ों से पता चलता है कि इस सीजन में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल धान का रकबा पिछले साल की समान अवधि की तुलना में करीब 17 प्रतिशत कम है। वहीं खरीफ की सबसे प्रमुख दलहन फसल अरहर का रकबा पिछले साल की समान अवधि की तुलना में करीब 18 प्रतिशत कम है।

विशेषज्ञों का कहना है कि पूर्वी भारत के प्रमुख धान उत्पादक इलाकों ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में दक्षिण

15 जुलाई, 2022 तक खरीफ फसलों की बुआई (लाख हेक्टेयर में)			
फसल	2022	2021	प्रतिशत बदलाव
धान	128.5	155.5	-17.36
दलहन	72.6	66.6	9.01
मोटे अनाज	93.9	87.0	7.93
तिलहन	134.0	124.8	7.37
कपास	102.8	96.5	6.53
कुल	592.1	591.3	0.14
नोट: कुल आंकड़े अलग हो सकते हैं क्योंकि सभी फसलों के आंकड़े नहीं दिए गए हैं			स्रोत: भारत सरकार

पश्चिमी मौनसून की बारिश कम होने के कारण धान का रकबा पिछले साल की तुलना में कम है।

धान का उत्पादन कम होने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं।विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले महीनों में मोटे अनाज के दाम में बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि केंद्रीय पुल में गेहूँ का स्टॉक पर्याप्त नहीं है, जिससे कि हस्तक्षेप कर कीमतों में बढ़ोतरी पर काबू पाया जा सके।

साथ ही अगर धान की बुआई में उल्लेखनीय गिरावट आती है तो सरकार को मौजूदा खुली निर्यात नीति पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है।आंकड़ों से पता चलता है कि धान की बुआई 128.5 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो खरीफ सीजन में धान की औसत रोपाई के रकबे १३7.0 लाख हेक्टेयर का करीब 32 प्रतिशत है।

अरहर की बुआई करीब 25.8 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो इस मौसम



की कुल सामान्य बुआई का 55 प्रतिशत है।

बाजार के सूत्रों ने कहा कि बुआई वाले प्रमुख इलाकों में जून महीने में मौनसून की करीब अनुपस्थिति की वजह से अरहर की बुआई कम हुई है,

क्योंकि अरहर की सबसे ज्यादा बुआई जून में होती है।

अन्य प्रमुख फसलों में कपास, सोयाबीन, मूंगफली और मूंग का रकबा पिछले साल की तुलना में

ज्यादा है, क्योंकि प्रमुख उत्पादक इलाकों मध्य, पश्चिमी और दक्षिणी भारत में पिछले कुछ दिनों में जोरदार बारिश हुई है।

इंदौर की सोयाबीन प्रोसेसर्स एसो-सिएशन आफ इंडिया (सोपा) ने एक बयान में कहा, ‘ज्यादातर इलाकों में सोयाबीन की बुआई पूरी हो चुकी है, कुछ इलाकों में भारी बारिश के कारण इसमें देरी हो रही है। कम अंकुरण की कोई शिकायत नहीं आई है।बहरहाल

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ जिलों में जलजमाव होने की वजह से समस्या है और अगर बारिश जारी रहती है तो फसलों को नुकसान हो सकता है।’

धान की स्थिति देखें तो आंकड़ों से पता चलता है कि 1 जून से 15 जुलाई के बीच बारिश पश्चिम बंगाल में सामान्य से 24 प्रतिशत कम, बिहार में 42 प्रतिशत कम, झारखंड में सामान्य से 49 प्रतिशत कम और उत्तर प्रदेश में सामान्य से 65 प्रतिशत कम बारिश हुई है।

ओडिशा में कुल बारिश सामान्य से 1 प्रतिशत ज्यादा हो गई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में तटीय इलाकों में जोरदार बारिश हुई है। हालांकि पूर्वी भारत के चावल उगाने वाले क्षेत्रों और उत्तर-पश्चिम भारत की शुष्क भूमि के लिए अभी आशा की किरण है। मौसम विभाग ने अपने हाल के अनुमान में कहा है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के हिमालयी क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत में 18 जुलाई से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है।

## उत्तर प्रदेश में मौनसून आने के लगभग तीन सप्ताह बाद भी राज्य के 75 में से 71 जिलों में कम बारिश होने से खरीफ फसलों के उत्पादन पर प्रतिकूल असर की आशंका

जिलों में चर्चित किया गया है। इस मौनसून में अब तक उत्तर प्रदेश में सिर्फ औसतन 77.3 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 65 फीसदी कम है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में केवल औसतन 77.2 मिमी बारिश हुई है, जो सामान्य 243.5 मिमी बारिश से 68 प्रतिशत कम है। इसी तरह, पश्चिम उग्र के जिलों में औसतन 77.5 मिमी बारिश हुई है जो सामान्य 187.1 मिमी . से 59 प्रतिशत कम है। कम वर्षा के कारण राज्य के गन्ना और धान उत्पादक क्षेत्र का एक बड़ा

### प्रतिकूल प्रभाव

■ मौनसून आने के लगभग तीन सप्ताह बाद भी उत्तर प्रदेश के 75 में से 71 जिलों में कम बारिश होने से खरीफ फसलों के उत्पादन पर प्रतिकूल असर की आशंका

हिस्सा प्रभावित हो सकता है। इसका असर खरीफ फसलों के उत्पादन पर पड़ने की संभावना है।

13 जुलाई की अद्यतन स्थिति के अनुसार खरीफ अभियान 2022-23 के तहत ९6.0३ लाख हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले 42.41 लाख हेक्टेयर भूमि की बुवाई की गई है, जो लक्ष्य का केवल 44.16 प्रतिशत है। इसमें से 45 फीसदी अकेले धान की खेती के कारण होता है।पिछले साल 1३ जुलाई तक 53.46 लाख हेक्टेयर जमीन की बुवाई हो चुकी थी। इस सीजन में कम बारिश के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित विभागों को सतर्क किया है। *भाषा*

## आरआईएनएल ने निकाली वैश्विक निविदा

इस्पात विनिर्माता राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) ने कोकिंग कोल और चूर्णित कोल इंजेक्शन (पीसीआई) की आपूर्ति के लिए वैश्विक निविदा निकाली है। आरआईएनएल ने एक अधिसूचना में कहा कि यह निविदा 3.75 लाख टन कोकिंग कोल और 75,000 पीसीआई की आपूर्ति के लिए है। उम्मेने कहा कि यह वैश्विक निविदा नोटिस आयातीत कोकिंग

## रेलरेस्ट्रो 450 रेलवे स्टेशनों पर करेगी खाना डिलिवर

इंदिवजल धरमाना  
नई दिल्ली, 15 जुलाई

**फूड टेक** स्टार्टअप कंपनी रेलरेस्ट्रो अब देश के 450 रेलवे स्टेशनों पर खाने की डिलिवरी करेगी। अब तक कंपनी 350 स्टेशनों पर सुविधा देरही

थी। अब 100 और नए स्टेशनों पर यात्री रेलरेस्ट्रो से ऑनलाइन ऑर्डर कर खाना मंगा सकते हैं। कंपनी के संस्थापक और निदेशक मनीष चंद्र ने बताया, 'अब आईआरसीटीसी के साथ मिलकर हमलोग 450 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर अपनी

सुविधाएं देंगे।' इस साल से रेलरेस्ट्रो यात्रियों को स्थानीय भोजन भी खिलाएगा। जिसमें उतर भारतीय, दक्षिण भारतीय, राजस्थानी, चीनी, महाद्वीपीय, सहित कई अन्य प्रकार के भोजन यात्रियों को परोसे जाएंगे। साथ ही नाश्ते की भी सुविधा शुरू करेंगे।

<div> <b>सैटिन क्रेडिटकेयर नेटवर्क लिमिटेड</b></div> <div><small>CIN: L65901DL1990PLC041766</small></div> <div><small>पंजीकृत कार्यालय: 5वीं मंजिल, कुंदन भवन, आचार्यपुर वाणिज्यिक परिसर, आचार्यपुर, दिल्ली-110033</small></div> <div><small>कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट नंबर 482, उद्योग विहार, फेज III, गुरुग्राम, हरियाणा-122016</small></div> <div><small>फोन नंबर 0124-4715400, वेबसाइट: <a href="http://www.satincreditcare.com">www.satincreditcare.com</a></small></div> <div><small>ई-मेल आइडी: <a href="mailto:secretarial@satincreditcare.com">secretarial@satincreditcare.com</a></small></div>	
<b>32वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना को प्रेषण का समापन</b>	
<span></span> <div>एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि सैटिन क्रेडिटकेयर नेटवर्क लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की ३२वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") <b>सुबवार, 10 अगस्त, 2022 को प्रातः 11:00 बजे (IST)</b> वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग /अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("वीसी/ओएवीएम") के माध्यम से एजीएम सूचना ("नोटिस") में निर्धारित व्यापार के लेन-देन के लिए आयोजित की जाएगी। कंपनी ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य सकुलर संख्या 14 /2020, 17/2020, 20 /2020, 02/2021, 19/2021, 21 /2021 और 2 /2022 तिथि 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 13 जनवरी, 2021, 8 दिसम्बर, 2021, 14 दिसम्बर, 2021 और 5 मई, 2022 (सामूहिक रूप से "एमसीए सकुलर") और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी दिनांक 12 मई, 2022 सकुलर संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/ सीएमडी2/ सीआईआर/पी/2020/79 के साथ पठित दिनांक 15 जनवरी, 2021 का सकुलर संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/ सीआईआर/पी/2021/11 तथा दिनांक 1३ मई, 2022 का सकुलर संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/ सीएमडी2/ सीआईआर/पी/2022/62 ("सेबी सकुलर") के तत्त्वधान में वित्तीय वर्ष ("वित्त वर्ष") 2021-22 के लिए एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट के साथ नोटिस शुक्रवार, 15 जुलाई, 2022 को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी, जिनके ई-मेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ("डीपी" / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं।</div>	
<div>सदस्य ध्यान दें कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट के साथ नोटिस कंपनी की वेबसाइट पर <a href="https://satincreditcare.com/wp-content/uploads/2022/07/Annual-Report-2021-2022.pdf">https://satincreditcare.com/wp-content/uploads/2022/07/Annual-Report-2021-2022.pdf</a>, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड <a href="http://www.bseindia.com">www.bseindia.com</a> और <a href="http://www.nseindia.com">www.nseindia.com</a> क्रमशः, और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("<a href="http://www.evotingindia.com">सीडीएसएल</a>") की वेबसाइट <a href="http://www.evotingindia.com">www.evotingindia.com</a> पर भी उपलब्ध है।</div>	
<div>कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुपालन में, समय-समय पर संशोधित, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक और पूर्वोक्त एमसीए और सेबी सकुलर द्वारा निर्धारित तिथि-निर्देश के अनुसार सदस्यों को सीडीएसएल द्वारा प्रदान की गयी ई-वोटिंग प्रणाली ("<b>ई-वोटिंग</b>") का उपयोग करके नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाती है। 3 अगस्त, 2022 ("<b>कट-ऑफ तिथि</b>") को इक्विटी शेयर रखने वाले सदस्यों के पास प्रति शेयर एक वोट होगा जैसा कि उनकी होल्डिंग के खिलाफ दिखाया गया है।</div>	
<div>कंपनी अपने सभी सदस्यों को नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा ("<b>रिमोट ई-वोटिंग</b>") प्रदान कर रही है। सदस्यों के पास एजीएम के दौरान ई-वोटिंग या रिमोट ई-वोटिंग का उपयोग करके किसी भी प्रस्ताव पर अपना वोट डालने का विकल्प है। एजीएम के दौरान ई-वोटिंग / रिमोट ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया नोटिस में दी गई है। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि रविवार, 7 अगस्त, 2022 को सुबह 10:00 बजे शुरू होगी। (आईएसटी) और मंगलवार, 9 अगस्त, 2022 को शाम 5:00 बजे समाप्त होता है। (आईएसटी)। इसके बाद सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं/ वांग ले सकते हैं लेकिन ऐसे प्रस्तावों पर फिर से वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।</div>	
<div>सदस्य जो मौलिक रूप में शेयर धारण कर रहे हैं या जिन्होंने अपना ईमेल पता कंपनी / डीपी / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं किया है या कोई भी व्यक्ति जो एजीएम के नोटिस के बावजूद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि के अनुसार शेयर रखता है, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नोटिस में निर्धारित तरीके से डाल सकता है।</div>	
<div>जिन सदस्यों ने कंपनी / डीपी / डिपॉजिटरी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत / अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें:</div>	
डीमैट रूप से धारित करते हुए	अपने डीपी / डिपॉजिटरी द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया के अनुसार, अपने डीमैट खाते में ई-मेल पता पंजीकृत / अपडेट करें
मौलिक रूप से धारित करते हुए	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (" <b>सेबी</b> ") सकुलर संख्या सेबी/एचओ/ एमआईआरएसडी/ एमआईआरएसडी, आरटीएमबी/पी/ सीआईआर/ 2021 / 655 दिनांक 3 नवंबर, 2021 के अनुसार कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (" <b>आरटीए</b> ") लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ ईमेल द्वारा <a href="mailto:swapann@linkintime.co.in">swapann@linkintime.co.in</a> पर निर्धारित पत्र आइएसआर-1 और अन्य प्रासंगिक प्रश्नों में विवरण पंजीकृत /अपडेट करें। कंपनी ने उन सदस्यों को पत्र भेजे हैं जिनके बारे में सेबी सकुलर के तहत आवश्यक विवरण प्रस्तुत करने के लिए फॉलोवो अप्रूप हैं।
<div>सदस्य कंपनी की वेबसाइट <a href="https://satincreditcare.com/investor-relations-satin-creditcare/OTHER">https://satincreditcare.com/investor-relations-satin-creditcare/OTHER</a> पर निवेशक अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के तहत 'केवाईसी विवरण का अद्यतन और डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म में शेर्यों का अनिवार्य मुद्रा के तहत' अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों ("<b>एफएयूव्यू</b>") की भी संदर्भ ले सकते हैं।</div>	
<div>कंपनी के निदेशक मंडल ने श्री राजीव भाटिया, एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड एकाउंटेंट (आईसीएआई सदस्यता संख्या 089018) मैसर्स राजीव भाटिया एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को एजीएम में ई-वोटिंग और रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए संवीक्षण के रूप में नियुक्त किया है।</div>	
<div>सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि ई-वोटिंग के संबंध में आपके कोई प्रश्न या मुद्दे हैं, तो आप <a href="http://www.evotingindia.com">www.evotingindia.com</a> पर एफएयूव्यू और सहायता अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध ई-वोटिंग मेनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या <a href="mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com">helpdesk.evoting@cdslindia.com</a> पर ई-मेल लिखें। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतों की भी राकेश दलवी, प्रबंधक, सीडीएसएल, ए विंग, 25वीं मंजिल, मेराधन फ्यूचरएक्स, मकफाला मिल कांपाउंड्स, एनएच जोशी मार्ग, लोअर परले (पूर्व), मुंबई - 400013 को संबोधित किया जा सकता है या <a href="mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com">helpdesk.evoting@cdslindia.com</a> पर ई-मेल भेजे या 1800225533 पर कॉल करें।</div>	
स्थान: गुरुग्राम	
दिनांक: 15.07.2022	<b>कृते सैटिन क्रेडिटकेयर नेटवर्क लिमिटेड</b> <div>हस्ता./—</div> <div>विपुल गर्गा</div> <div>(कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी)</div>

**डिस्क्लेमर.-** बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट और फीचर लेखों के माध्यम से बाजारों, कॉर्पोरेट जगत और सरकार से जुड़ी घटनाओं की निष्पक्ष तत्वीर पेश करने का प्रयास किया जाता है। बिजनेस स्टैंडर्ड के नियंत्रण एवं जानकारी से परे परिस्थितियों के कारण वास्तविक घटनाक्रम भिन्न हो सकते हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर पाठकों द्वारा किए जाने वाले निवेश और लिए जाने वाले कारोबारी निर्णयों के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। बिजनेस स्टैंडर्ड के सभी विज्ञापन सद्भाव में स्वीकार किए जाते हैं। इनके साथ बिजनेस स्टैंडर्ड न तो जुड़ा हुआ है और न ही उनका समर्थन करता है। विज्ञापनों से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा संबंधित विज्ञापनदाता से ही किया जाना चाहिए। मै. बिजनेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. का सर्वाधिकार सुरक्षित है बिजनेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. से लिखित अनुमति किए बिना समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी सामग्री का किसी भी तरह प्रकाशन या प्रसारण निषिद्ध है। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक निकाय द्वारा इस प्रकार का निषिद्ध कार्य किए जाने पर दीवानी और फौजदारी कार्यवाही शुरू की जाएगी।

# निर्यातक करेंगे रुपये में लाभ का दावा!

श्रेया नंदी  
नई दिल्ली, 15 जुलाई

**केंद्र** सरकार जल्द ही विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) में संशोधन करने जा रही है।इसका मकसद निर्यातकों को रुपये में निर्यात लाभ का दावा करने में सक्षम बनाना है, जो अब तक विदेशी मुद्रा में मिलने वाले निर्यात भुगतान के लिए ही उपलब्ध था। भारतीय रिजर्व बैंक (आर-बीआई) द्वारा हाल ही में अंतरराष्ट्रीय व्यापार लेन-देन को रुपये में निपटाने के लिए एक व्यवस्था पेश करने के बाद निर्यातकों ने कहा कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को इस मामले पर स्पष्टीकरण देना चाहिए।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, 'केंद्रीय बैंक ने सीमा पार भुगतान रुपये में करने की अनुमति दे दी है, ऐसे में विदेश व्यापार नीति में कुछ बदलाव

करने होंगे।' हालांकि यह साफ नहीं है कि यह बदलाव मौजूदा विदेश व्यापार नीति का हिस्सा होगा या यह नई नीति में किया जाएगा, जिसे सितंबर में विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा पेश किए जाने की संभावना है।

फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (फियो) के उपाध्यक्ष खालिद खान ने कहा, 'हमारी विदेश व्यापार नीति के मुताबिक रिबेट आफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स एंड लेवीज (आरओए-ससीटीएल) और रैमिशन आफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज आन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स (आरओडीटीईपी) जैसी योजनाओं के तहत मिलने वाले निर्यात प्रोत्साहन ईरान के मामले को छोड़कर रुपये में उपलब्ध नहीं हैं। अगर रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि रुपये में कारोबार किसी भी देश से किया जा सकता है तो ऐसे में नीति में



**विदेश व्यापार नीति में जल्द ही किया जाएगा संशोधन**

बदलाव की घोषणा भी करनी होगी।' अभी इन योजनाओं के तहत लाभ तभी मिलता है, जब भुगतान विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया जाता है। इस सप्ताह की शुरुआत में रिजर्व बैंक ने कहा था कि वैश्विक व्यापार में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए रुपया कारोबार की अनुमति दी गई है।इसमें भारत से निर्यात पर जोर दिया गया है और इसका मकसद वैश्विक कारोबारी समुदाय की रुपये में

दिलचस्पी बढ़ाना है। इस तरह के लेन देन के लिए बैंकों से मंजूरी लेनी होगी और दो कारोबारी साझेदार देशों के बीच विनिमय दर बाजार द्वारा निर्धारित होगा।

निर्यातकों ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इससे रूस जैसे प्रतिबंध से प्रभावित देशों के साथ कारोबार हो सकेगा। इसी तरह ईरान की भी अमेरिकी प्रतिबंध है, जहां दो बैंकों- आईडीबीआई बैंक और यूको बैंक को रुपये में कारोबार के निपटान की अनुमति है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्रीय बैंक द्वारा व्यवस्था की घोषणा की जाती है और इसे बेहतर तरीके से लागू किया जाता है तो इससे भारत और ईरान के बीच कारोबार को बढ़ावा मिलेगा।

निर्यातक इस समय विस्तृत दिशानिर्देशों का इंतजार कर रहे हैं कि रिजर्व बैंक की अधिसूचना की किस तरह से व्याख्या की जाएगी।

# वैश्विक मंदी के डर से घटेगी थोक महंगाई

इंदिवजल धरमाना  
नई दिल्ली, 15 जुलाई

**अमेरिका** में खुदरा मूल्य पर आधारित महंगाई दर 20 साल के उच्च स्तर पर है, जिसे देखते हुए फेडरल रिजर्व द्वारा नीतिगत दरों में और बढ़ोतरी किए जाने की संभावना है।इसकी वजह से वैश्विक मंदी की आशंका और बढ़ेगी और भारत में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर में कमी आने की संभावना है। वैश्विक वजहों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर पर असर पड़ने में थोड़ा वक्त लगेगा।

बहरहाल इसका कुछ असर भारत से पूंजी के सुरक्षित स्थानों पर जाने के कारण रुपये में होने वाली गिरावट और फेडरल रिजर्व द्वारा दरी में बढ़ोतरी से वहां ज्यादा राजस्व पूंजी आने की वजह से कम हो जाएगा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले आज सुबह रुपये का कारोबार 79.80 पर हुआ, जबकि बुधवार को यह 79.64 पर बंद हुआ था।

क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री डीके जोशी ने कहा कि जिसों के वैश्विक दाम कम होने से थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित महंगाई दर में कमी आएगी और यह असर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित महंगाई दर की तुलना में ज्यादा रहेगा। उनके अनुमान के मुताबिक डब्ल्यूपीआई महंगाई पर वैश्विक कारणों का असर 60 प्रतिशत है, जबकि ऐतिहासिक रूप से इसका असर 30 प्रतिशत ही रहा है। उन्होंने कहा, 'सीपीआई पर आधारित महंगाई दर पर वैश्विक असर बहुत कम होता है, इसलिए इससे कम होने में लंबा वक्त लगेगा।'

बहरहाल अगर अमेरिकी फेडरल रिजर्व आक्रामक रूप से सख्ती करता है तो इसका असर रुपये पर पड़ेगा, जिसे हाल में जिंसों के दाम में वैश्विक कमी का कुछ लाभ मिल रहा था।जोशी ने कहा, 'असर इस पर भी निर्भर होगा कि रुपया कितना कमजोर होता है और कितने समय तक उस पर स्थिर रहता है। इसके



पहले हुई तेज गिरावटों से हमें पता चलता है कि लंबे समय तक डॉलर के मुकाबले रुपया गोते लगाता रहा है और इसमें सुधार तब हुआ जब जोशिम कम हो गया।' उन्होंने कहा कि अभी जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, बहुत जटिल हैं और कई वजहों का इस पर असर पड़ रहा है।

इक्रा में मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि अमेरिका में महंगाई बढ़ने की वजह से आक्रामक रूप से मौद्रिक सख्ती की उम्मीद है और

इससे मंदी का खतरा और बढ़ेगा और जिंसों की कीमतों में कमी आएगी। उन्होंने कहा, 'भारत के संदर्भ में देखें तो इससे डब्ल्यूपीआई महंगाई दर तेजी से कम हो सकती है, जबकि खुदरा महंगाई दर पर धीरे धीरे असर होगा।'

एचडीएफसी बैंक ट्रेजरी में प्रधान अर्थशास्त्री साक्षी गुप्ता ने कहा कि महंगाई दर ज्यादा होने की वजह से अमेरिकी फेडरल रिजर्व नीतिगत दरों में 100 आधार अंक की बढ़ोतरी कर

सकता है और इससे मंदी का डर बढ़ेगा।

क्वांटइको रिसर्च में प्रधान अर्थशास्त्री युविका सिंगल ने कहा कि ज्यादातर जिंसों के दाम में हाल के सप्ताहों में कमी आई है क्योंकि बाजार इस समय मंदी के जोखिम से डरा हुआ है और इसकी वजह से वैश्विक मांग कम हुई है।

हालांकि बैंक आफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा कि ज्यादातर दाम कम होने से डब्ल्यूपीआई कम हो सकता है, क्योंकि धातुओं व रसायनों की कीमत घटेंगी, लेकिन सीपीआई स्थानीय वजहों से संचालित होगा।

उन्होंने कहा, 'अमेरिका में महंगाई दर हमारे यहां की महंगाई दर से अलग है।हमारे यहां उत्पादक ज्यादा इनपुट लागत ग्राहकों पर डाल रहे हैं। उत्पादन (आपूर्ति) की वजहों से खाद्य महंगाई पर असर पड़ा है।साथ ही आयातित तेल और प्रसंस्करित खाद्य की लागत बढ़ी है। सेवाएं और महंगी हुई हैं। इस तरह से हमारी महंगाई कई वजहों से संचालित है।'

बीएस सूडोकू 4410												
9	4			1		2						
	7		2			8						
6	5				9							
				1		5	4					
8							7					
1			8	6		2						
	3											
5			7			6						

# परिणाम संख्या 4409

4	6	8	9	5	2	1	3	7
9	1	7	8	3	4	5	2	6
5	3	2	1	6	7	4	8	9
6	4	1	5	9	3	2	7	8
7	8	9	2	4	1	6	5	3
2	5	3	7	8	6	9	1	4
8	9	6	3	1	5	7	4	2
1	7	4	6	2	8	3	9	5
3	2	5	4	7	9	8	6	1

कैसे खेलें ?

हर रो, कॉलम और 3  
के बाईं 3 के बॉक्स में  
1 से लेकर 9 तक की  
संख्या भरें।

आसान